



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 15] नई दिल्ली, शनिवार, अप्रैल 11—अप्रैल 17, 2009 (चैत्र 21, 1931)

No. 15] NEW DELHI, SATURDAY, APRIL 11—APRIL 17, 2009 (CHAITRA 21, 1931)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

## भाग I—खण्ड 2

## [PART I—SECTION 2]

[(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों व छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं]

[Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Govt. Officers issued by the Ministries of the Govt. of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

राज्य सभा सचिवालय

नई दिल्ली, दिनांक 25 मार्च 2009

सं. आरएस/5/5/2009/9—कार्मिक—श्री राणा धीरेन्द्र प्रताप यादव, अस्थायी कनिष्ठ संसदीय भाषान्तरकार ने 20 मार्च, 2009 को आयोजित विभागीय भाषान्तरण परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है।

सी. बी. राय, निदेशक

मंत्रीमंडल सचिवालय

नई दिल्ली, दिनांक 9 मार्च 2009

सं. ए. 43013/01/2006—प्रशा. 1—राष्ट्रपति, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 30 जनवरी, 2009 के कार्यालय ज्ञापन सं. 4/9/2008—सीएस. 1 (डी) द्वारा वर्ष 2006 के लिए केन्द्रीय सचिवालय सेवा के चयन वेतनमान (उप सचिव) की चुनिंदा सूची में शामिल किए जाने के परिणामस्वरूप, इस सचिवालय के निम्नलिखित ग्रेड-1 (अवर सचिव) अधिकारियों को 1 जुलाई, 2006 से अगले आदेशों तक नियमित आधार

पर केन्द्रीय सचिवालय सेवा के चयन वेतनमान (उप सचिव) में नियुक्त करते हैं :—

क्र. सं. नाम तथा पदनाम

सर्वश्री

1. रमन के. मेहता

2. डी. मदान

आर. कृष्णमूर्ति, अवर सचिव

विधि एवं न्याय मंत्रालय

(विधायी विभाग)

नई दिल्ली-110001, दिनांक 24 मार्च 2009

सं. ए. 32014/2/2005—प्रशा. 1 (वि.वि.)—विधि और न्याय मंत्रालय, विधायी विभाग में सक्षम प्राधिकारी, श्री मोहम्मद हुसैन, निजी सचिव की प्रतिनियुक्ति आधार पर गोपनीय अधीक्षक के पद पर नियुक्ति की अवधि को उक्त मंत्रालय के विधायी विभाग में दिनांक 30 मार्च, 2009 की पूर्वाह्न से और आगे एक वर्ष के लिए अथवा अगले आदेशों तक,

जो भी पहले हो, रुपए 9,300--34,800/- के वेतन बैंड + रुपए 4,800/- के ग्रेड वेतन में, बढ़ाते हैं।

एल. आर. राव, उप सचिव

विधि कार्य विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 26 मार्च 2009

सं. ए. 38012/2/2009-प्रशा. IV (वि.का.)--माननीय विधि और न्याय मंत्री के अपर निजी सचिव श्री विजय कुमार अधिवर्षिता को आयु होने पर दिनांक 28 फरवरी 2009 के अपराह्न को सरकारी सेवा से निवृत्त हो गए हैं।

गणेश दत्त शर्मा, अवर सचिव

न्याय विभाग

नई दिल्ली-110011, दिनांक 23 मार्च 2009

सं. के. 13022/3/2008-यू.एस. 1--राष्ट्रपति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 217 के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केरल उच्च न्यायालय के अपर न्यायाधीश, (i) न्यायविद् श्री तेनाममाक्कल ईम्पैल रावुतर हारुण अलरषीद (ii) न्यायविद् श्री वलियपरम्बिल कुट्टप्पन मोहनन और (iii) न्यायविद् श्री गिरि वैक्किटसुब्रमणी को, उसी वरीयता क्रम में, उस तारीख, जब वे अपना कार्यभार ग्रहण करेंगे, से केरल उच्च न्यायालय के न्यायाधीश सहर्ष नियुक्त करते हैं।

रमेश अभिषेक, संयुक्त सचिव

सं. के. 13014/6/2008-यू.एस. 1--राष्ट्रपति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 224 के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, (i) श्री फिलोमन मानुयल लोपो सालेश रोजारीओ डूश रईस (ii) श्री राजेश गोविंद कंतकर और (iii) श्री रवि कृष्णराव देशपांडे को, उसी वरीयता क्रम में, उस तारीख, जब वे अपना-अपना कार्यभार ग्रहण करेंगे, से दो वर्ष की अवधि के लिए बम्बई उच्च न्यायालय में अपर न्यायाधीश सहर्ष नियुक्त करते हैं।

रमेश अभिषेक, संयुक्त सचिव

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 27 मार्च 2009

सं. आई 14011/11/2008-आईपीएस-1 (1)--भारतीय पुलिस सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियम, 1955 के विनियम 7 के उप-विनियम (3) में निहित उपबंधों का प्रयोग करते हुए संघ लोक सेवा आयोग ने दिनांक 20.03.2009 को चयन समिति की दिनांक 08.12.2008 की बैठक में इसके द्वारा बनाई गई 2008 की उस चयन सूची को अनुमोदित कर दिया है जिसमें भारतीय पुलिस सेवा के संयुक्त असम-मेघालय संवर्ग में वर्ष 2008 में दो मौलिक रिक्तियों को भरे जाने

हेतु मेघालय पुलिस सेवा के निम्नलिखित अधिकारियों का नाम शामिल किया गया है :--

चयन सूची-2008

क्र. सं. अधिकारियों के नाम	जन्म तिथि
सर्वश्री	
1. ए. आर. मावथोह (एस.टी.)	24.02.1963
2. एस. एस. क्यंजिंग (एस.टी.)	01.02.1962

ओ. एस. अशोक, अवर सचिव

सं. आई-14011/11/2008-आईपीएस-1 (II)--राष्ट्रपति, भारतीय पुलिस सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियम, 1955 के विनियम 9 के उप-विनियम (1) के साथ पठित भारतीय पुलिस सेवा (भर्ती) विनियम, 1954 के विनियम 9 के उप-विनियम (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मेघालय राज्य पुलिस सेवा के निम्नलिखित सदस्यों को भारतीय पुलिस सेवा में परिवीक्षा पर नियुक्त करते हैं तथा उन्हें भारतीय पुलिस सेवा (संवर्ग) विनियम, 1954 के विनियम 5 के उप-विनियम (1) के अन्तर्गत संयुक्त असम-मेघालय संवर्ग प्रदान करते हैं :--

चयन सूची-2008

क्र. सं. अधिकारियों के नाम	जन्म तिथि
सर्वश्री	
1. ए. आर. मावथोह (एस.टी.)	24.02.1963
2. एस. एस. क्यंजिंग (एस.टी.)	01.02.1962

2. यह नियुक्तियां अधिसूचना के जारी होने की तिथि से प्रभावी होंगी।

ओ. एस. अशोक, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 30 मार्च 2009

सं. ए. 32014/2/2009-प्रशा. 1 (क)--राष्ट्रपति, के.स.आ.से. (सीएसएसएस) के श्रीमती एंजला स्टीफन (वरीयता सं. 12) प्रधान निजी सचिव, जो कि गृह मंत्रालय में तदर्थ आधार पर वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव के रूप में कार्यरत हैं, को उनके नाम के.स.आ.से. (सीएसएसएस) के चयन ग्रेड 2007 के वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव के ग्रेड के पी.बी.-3 : रु. 15,600--39,100/- + ग्रेड पे रु. 7,600/- (संशोधित) में शामिल किए जाने के अनुसरण में नियमित आधार पर वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव के पद पर दिनांक 21.1.2009 के पूर्वाह्न से नियुक्त करते हैं।

जे. बी. शर्मा, अवर सचिव

नई दिल्ली-110001, दिनांक 30 मार्च 2009

सं. आई-18011/1/2009-आईपीएस-IV--भारतीय पुलिस सेवा (परिवीक्षा) नियम, 1954 के नियम-3 क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति भारतीय पुलिस सेवा के बिहार संवर्ग के निम्नलिखित अधिकारियों को उनके नामों के सामने दर्शायी गई तारीखों से भारतीय पुलिस सेवा में स्थायी करती हैं :--

क्र. सं. अधिकारी का नाम	भारतीय पुलिस सेवा में स्थायी किए जाने की तारीख
सर्वश्री	
1. राजेश कुमार, आई पी एस (बिहार : 2003)	01.09.2005
2. विकास वैभव, आई पी एस (बिहार : 2003)	22.12.2005

राजेन्द्र कुमार, अनुभाग अधिकारी (आई पी एस-IV)

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय  
(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 24 मार्च 2009

सं. 13017/19/08-अ.भा.से. (1)--भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग) नियमावली, 1954 के नियम 6(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तथा पंजाब सरकार और एजीएमयू संवर्ग के संवर्ग नियंत्रक प्राधिकरण के रूप में गृह मंत्रालय की सहमति से, केन्द्र सरकार श्री जसबीर सिंह बिर, भा.प्र.से. (पी बी : 89) की पंजाब संवर्ग से एजीएमयू संवर्ग में अंतःसंवर्ग प्रतिनियुक्ति पर दिनांक 20.4.08 से 18.07.08 तक अधिक ठहराव की अवधि को एतद्वारा नियमित करती है।

हरजोत कौर, निदेशक (सेवाएं)

नई दिल्ली, दिनांक 18 मार्च 2009

सं. ए. 32013/1/2009-प्रशा. I--वर्ष 2007 हेतु चयन ग्रेड (उप सचिव) की चयन सूची में शामिल किए जाने के परिणामस्वरूप राष्ट्रपति, श्री शैलेन्द्र कुमार, केन्द्रीय सचिवालय सेवा को दिनांक 25 फरवरी, 2009 के पूर्वाह्न से अगले आदेश होने तक कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग में वेतन बैंड-3 (पी.बी.-3) रु. 15,600--39,100/- + 7,600/- (ग्रेड पे) में उप सचिव के रूप में नियुक्त करती है।

हरीश चन्द्र, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 25 मार्च 2009

सं. 14015/17/2008-अ.भा.से. (1)-क--भारतीय प्रशासनिक सेवा (चयन द्वारा नियुक्ति) विनियमावली, 1997 के विनियम 8 के साथ पठित भारतीय प्रशासनिक सेवा (भर्ती) नियमावली, 1954 के नियम 8(2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति प्रवर सूची वर्ष 2008 के लिए, राज्य सरकार से परामर्श करके उपर्युक्त विनियमावली के विनियम 3 अंतर्गत भारत सरकार द्वारा निर्धारित गैर-राज्य सिविल

सेवा श्रेणी के अंतर्गत भारतीय प्रशासनिक सेवा के उड़ीसा संवर्ग की पदोन्नति कोट रिक्रियों को भरने के लिए, विनियम 5 के अंतर्गत 22.11.2008 को तैयार की गई और विनियम 7(2) के अंतर्गत 24.2.2009 को अनुमोदित उड़ीसा राज्य के गैर-राज्य सिविल सेवा के अधिकारियों के संबंध में निम्नलिखित नामों वाली प्रवर सूची को अधिसूचित करते हैं :--

चयन सूची 2008

क्र. सं.	अधिकारी का नाम	जन्म तिथि
1.	डॉ. अखिला बिहारी ओता	12.9.1957
2.	डॉ. प्रशान्त कुमार प्रधान	26.1.1954

एस. एस. शुक्ला, अवर सचिव

सं. 14015/17/2008-अ.भा.से. (1)-ख--भारतीय प्रशासनिक सेवा (चयन द्वारा नियुक्ति) विनियमावली, 1997 के विनियम 8 और भारतीय प्रशासनिक सेवा (परिवीक्षा) नियमावली, 1954 के नियम 3 के साथ पठित भारतीय प्रशासनिक सेवा (भर्ती) नियमावली, 1954 के नियम 8(2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति उड़ीसा की गैर-राज्य सिविल सेवा के निम्नलिखित सदस्यों को, प्रवर सूची वर्ष 2008 के लिए राज्य सरकार से परामर्श करके उपर्युक्त विनियमावली के विनियम 3 के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा निर्धारित रिक्रियों पर भारतीय प्रशासनिक सेवा परिवीक्षा पर, अगले आदेशों तक, नियुक्त करते हैं तथा उन्हें भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग) नियमावली, 1954 के नियम 5(1) के अंतर्गत भारतीय प्रशासनिक सेवा के उड़ीसा संवर्ग में आवंटित करते हैं :--

चयन सूची 2008

क्र. सं.	अधिकारी का नाम
1.	डॉ. अखिला बिहारी ओता
2.	डॉ. प्रशान्त कुमार प्रधान

एस. एस. शुक्ला, अवर सचिव

दिनांक 26 मार्च 2009

शुद्धि-पत्र

सं. 14015/21/208-अ.भा.से. (1)--कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग) द्वारा जारी अधिसूचना सं. 14015/21/2008-अ.भा.से. (1)-क दिनांक 24 फरवरी, 2009 में चयन समिति की बैठक की तारीख अर्थात् "22.11.2008" के स्थान पर तारीख "22.12.2008" होगी।

एस. एस. शुक्ला, अवर सचिव

सं. 14015/32/2008-अ.भा.से. (1)-क--भारतीय प्रशासनिक सेवा में पदोन्नति किए जाने के क्रम में वर्ष 1999, 2000 और 2001 की प्रवर सूचियों में शामिल किए जाने हेतु श्री रिसाल सिंह खारा के नाम पर विचार किए जाने के लिए ओ.ए. सं. 1883/2008 में माननीय केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण, प्रधान खण्ड पीठ के दिनांक 17.9.2008 के निर्देशों के अनुपालन में, समीक्षा चयन समिति को दिनांक 11 दिसम्बर, 2008 को आयोजित बैठक में की गई सिफारिशों और संघ लोक सेवा आयोग द्वारा 23 मार्च, 2009 के पत्र में इस संबंध में किए गए अनुमोदन के अनुक्रम में राष्ट्रपति, भारतीय प्रशासनिक सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियमावली, 1955 के विनियम 9(1) और भारतीय प्रशासनिक सेवा (परीवीक्षा) नियमावली, 1954 के नियम 3 के साथ पठित भारतीय प्रशासनिक सेवा (भर्ती) नियमावली, 1954 के नियम 8(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा राज्य सिविल सेवा के सदस्य श्री रिसाल सिंह खारा को, उनके नाम को प्रवर सूची, 1999 में शामिल किए जाने के आधार पर अगले आदेशों तक परीवीक्षा आधार पर भारतीय प्रशासनिक सेवा में नियुक्त करते हैं और उन्हें भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग) नियमावली, 1954 के नियम 5(1) के अंतर्गत भारतीय प्रशासनिक सेवा के हरियाणा संवर्ग में आवंटित करते हैं।

एस. एस. शुक्ला, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 26 मार्च 2009

सं. 22012/14/2002-अ.भा.से. (1)--ओ.ए. संख्या 91/2002 में माननीय केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण, गुवाहाटी न्यायापीठ के दिनांक 20.6.2003 के आदेश तथा रिब्यू एस.एल.पी. संख्या 2145/08 में उच्चतम न्यायालय के दिनांक 11.12.2008 के आदेश के साथ पठित रिट याचिका संख्या 1574/2004 में गुवाहाटी उच्च न्यायालय के दिनांक 9.1.2006 के आदेश के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार, भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग) नियमावली, 1954 के नियम 5 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री जे. श्यामल राव को भारतीय प्रशासनिक सेवा के असम-मेघालय के संयुक्त अ.भा.से. संवर्ग से आन्ध्र प्रदेश के भा.प्र.से. संवर्ग में आवंटित करती है। यह अधिसूचना, मंत्रालय की दिनांक 27.5.1999 की अधिसूचना संख्या 13011/30/96/अ.भा. सं. (1) के अधिकरण में जारी की जाती है।

आर. के. गुप्ता, अवर सचिव (अ.भा.से.)

नई दिल्ली-110067, दिनांक 27 मार्च 2009

सं. 13016/02/2001-प्रशिक्षण-I--राष्ट्रपति, केन्द्रीय सचिवालय सेवा संवर्ग, गृह मंत्रालय के अवर सचिव श्री पी. एस. सरीन की सचिवालय प्रशिक्षण और प्रबंधन संस्थान, नई दिल्ली में उप निदेशक (प्रबंधन सेवा) के रूप में प्रतिनियुक्ति आधार पर नियुक्ति को दिनांक 17.02.2009 से 16.02.2010 तक एक वर्ष की अगली अवधि हेतु अथवा उनके एवजी के पत्र ग्रहण करने तक, इनमें से जो पहले हो, जारी रखते हैं।

2. यह अधिसूचना इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 13.02.2008 के अनुक्रम में जारी की जाती है।

संदीप मुखर्जी, अवर सचिव (प्रशिक्षण)

विदेश मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 25 नवम्बर 2008

सं. 3/पी.बी.-III/2008--अधिर्वर्षिता की आयु प्राप्त कर लेने पर भारतीय विदेश सेवा (ख) के आशुलिपिक संवर्ग के प्रधान निजी सचिव ग्रेड के अधिकारी श्री राधे श्याम, 31.10.2008 के अपराह्न में सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हो गए और उन्होंने 31 अक्टूबर, 2008 के अपराह्न में विदेश मंत्रालय में प्रधान निजी सचिव के पद का कार्यभार त्याग दिया।

भास्कर भट्ट, प्रशासनिक अधिकारी (पी.बी.-1)

दिनांक 13 जनवरी 2009

सं. 01/पी.बी.-I/2009--अधिर्वर्षिता की आयु प्राप्त कर लेने पर भारतीय विदेश सेवा (ख) के सामान्य संवर्ग के एकीकृत ग्रेड-II और III के अधिकारी श्री हरीश कुमार (जन्म तिथि 18.12.1948) 31.12.2008 के अपराह्न में सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हो गए और उन्होंने 31.12.2008 के अपराह्न से विदेश मंत्रालय में अनुभाग अधिकारी का पदभार त्याग दिया है।

भास्कर भट्ट, प्रशासनिक अधिकारी (पी.बी.-I व III)

दिनांक 19 जनवरी 2009

सं. 02/पी.बी.-I/2009--राष्ट्रपति, मंत्रालय के का.जा. सं. क्यू/सीएडी/548/04/2008 दिनांक 3 जून, 2008 के तहत भा.वि.से. (ख) के साइफर संवर्ग के ग्रेड-II के निम्नलिखित अधिकारी को उनके नाम के आगे दर्शायी गई तिथि से भा.वि.से. (ख) के सामान्य संवर्ग के एकीकृत ग्रेड-II और III में स्थानापन्न रूप में नियुक्त करते हैं :-

अधिकारी का नाम	जन्म तिथि	पदोन्नति की तारीख
श्री अनूप देमता	30.11.1969	01.01.2009

2. उपर्युक्त अधिकारी ने अपने नाम के आगे निर्दिष्ट तिथि से अनुभाग अधिकारी के पद का कार्यभार ग्रहण कर लिया है।

भास्कर भट्ट, प्रशासनिक अधिकारी (पी.बी.-I व III)

दिनांक 3 फरवरी 2009

सं. 04/पी.बी.-I/2009--अधिर्वर्षिता की आयु प्राप्त कर लेने पर भारतीय विदेश सेवा (ख) के सामान्य संवर्ग के एकीकृत ग्रेड-II और III के अधिकारी श्री किशोरी लाल (जन्म तिथि 07.01.1949) 31.01.2009 के अपराह्न में सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हो गए और उन्होंने 31.01.2009 के अपराह्न से विदेश मंत्रालय में अनुभाग अधिकारी का पदभार त्याग दिया है।

भास्कर भट्ट, प्रशासनिक अधिकारी (पी.बी.-I व III)

सं. 03/पी.बी.-1/2009--अधिवर्षिता की आयु प्राप्त कर लेने पर भारतीय विदेश सेवा (ख) के सामान्य संवर्ग के एकीकृत ग्रेड-II और III की अधिकारी श्रीमती सरोज सेठी (जन्म तिथि 03.01.1949) 31.01.2009 के अपराह्न में सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हो गयीं और उन्होंने 31.01.2009 के अपराह्न से विदेश मंत्रालय में अनुभाग अधिकारी का पदभार त्याग दिया है।

भास्कर भट्ट, प्रशासनिक अधिकारी (पी.बी.-I व III)

वित्त मंत्रालय  
(राजस्व विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 25 मार्च 2009

सं. 3/2009 : (फा. सं. ए. 32014/01/2009-प्रशा. 1क)--व्यय विभाग की दिनांक 20 फरवरी, 2009 के कार्यालय आदेश सं. ए. 32014/03/2008-सी ए एस के अनुसरण में राष्ट्रपति, निम्नलिखित अधिकारियों का चयन सूची वर्ष 2003 और 2004 के प्रति दिनांक 20 फरवरी 2009 से नियमित आधार पर पी.बी.-3 (15,600--39,100/- + ग्रेड वेतन 66,000/- रुपये) में केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के प्रधान निजी सचिव के रूप में नियुक्त करते हैं :-

चयन सूची वर्ष-2003

क्र. सं.	नाम
	सर्वश्री/श्रीमती
1.	सी. गोपीनाथन, प्रधान निजी सचिव
2.	मनिंदर जीत सिंह, प्रधान निजी सचिव
3.	ए. बालाकृष्णन, प्रधान निजी सचिव

चयन सूची वर्ष-2004

क्र. सं.	नाम
	सर्वश्री/श्रीमती
1.	वी. पी. कुंजाचन, प्रधान निजी सचिव
2.	विनोद भूषण शर्मा, प्रधान निजी सचिव

आनंद उपाध्याय, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 12 मार्च 2009

भारतीय राजस्व सेवा (सीमा-शुल्क एवं केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क स्थापनाएं)

सं. 11/2009 (फा. सं. ए. 38012/03/2009-प्रशा. II)--राष्ट्रपति, श्री मैथ्यू फिलिप, सहायक आयुक्त केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, दमन का दिनांक 30.04.2009 (अपराह्न) से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का नोटिस सी सी एस पेन्शन नियमावली 1972 के नियम 48 के अंतर्गत स्वीकार करते हैं।

एस. के. देब, अवर सचिव

सं. 12/2009 (फा. सं. ए. 38012/04/2009-प्रशा. II)--राष्ट्रपति, श्री गोवर्धन लाल (जन्म तिथि 07.06.1950) सहायक आयुक्त केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, जयपुर का स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का नोटिस दिनांक 25.04.2009 (पूर्वाह्न) से नियम 48क, सी सी एस पेन्शन नियमावली, 1972 के अंतर्गत स्वीकार करते हैं।

एस. के. देब, अवर सचिव

व्यय विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 24 मार्च 2009

सं. ए. 12026/5/2005-प्रशा. I--राष्ट्रपति, श्रीमती अंजली चिब दुग्गल भा.प्र. सेवा (पंजाब : 81) को वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग में दिनांक 23 मार्च, 2009 की अपराह्न से 5 वर्षों की अवधि के लिए अर्थात् 23 मार्च, 2014 (पूर्वाह्न) अथवा अगले आदेशों तक, इनमें से जो भी पहले हो, 37,400--67,000/- रुपये + 10,000/- रुपये (ग्रेड वेतन) के वेतन बैंड (4) में संयुक्त सचिव (यो.वि-1) के पद पर नियुक्त करते हैं।

मीताली घोष, अवर सचिव

मुख्य सलाहकार लागत का कार्यालय

नई दिल्ली, दिनांक 30 मार्च 2009

सं. ए. 60011/3/2007-सीएसी--संच लोक सेवा आयोग की सिफारिशों पर राष्ट्रपति, श्री गुरुप्रीत सिंह आनन्द को भारतीय लागत लेखा सेवा में सहायक निदेशक (लागत) के ग्रेड में वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग में पे-बैंड 3, 15,600--37,400/- ग्रेड वेतन 5,400/- रु. (पूर्व संशोधित 8,000-275-13,500/- रु.) के वेतनमान में 13 मार्च 2009 के पूर्वाह्न से नियुक्त करते हैं, सहायक निदेशक (लागत) के रूप में नियुक्ति पर उन्हें मुख्य सलाहकार (लागत) के कार्यालय में तैनात किया गया है।

एम. के. साहू, उप निदेशक (लागत)

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय  
(आर्थिक सलाहकार का कार्यालय)

नई दिल्ली, दिनांक 17 मार्च 2009

सं. ए. 22012 (1)/2007-आ.स. (प्रशा. I)--आर्थिक कार्य विभाग के आदेश सं. पी-2/2009 (फा. सं. 13016/4/2009-आई.ई.एस.) के अनुसार भारतीय आर्थिक सेवा के वरिष्ठ समयमान स्तर में पदोन्नति होने पर श्री अश्विनी कुमार ने आर्थिक सलाहकार के कार्यालय, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में उप निदेशक पद पर दिनांक 13 मार्च, 2009 (पूर्वाह्न) से पी.बी.-3, रुपये 15,600--39,100/- व ग्रेड वेतन रुपये 6,600/- में कार्यभार ग्रहण कर लिया है।

रंजन मुखर्जी, उप निदेशक

## कोयला मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 26 मार्च 2009

सं. 18/7/2007-एसओ--राष्ट्रपति, कोयला मंत्रालय में सलाहकार (परियोजना) श्री पी. आर. मंडल को कोयला नियंत्रक का कार्यालय, कोलकाता में सौंपे गए कोयला नियंत्रक के पद के अतिरिक्त प्रभार की अवधि को 31.3.2009 से 30.6.2009 तक अथवा जब तक इस पद पर नियमित नियुक्ति नहीं हो जाती है अथवा अगले आदेशों तक, इसमें से जो भी पहले हो, सहर्ष बढ़ाते हैं।

शरद घोडके, निदेशक

## स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

नई दिल्ली-110018, दिनांक 24 मार्च 2009

सं. ए. 12025/31/2008-सी.एच.एस. IV--राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों पर डॉ. (श्रीमती) सिमृता सिंह को दिनांक 7 नवम्बर, 2008 के पूर्वाह्न से अगले आदेश तक एक वर्ष की अवधि के लिए केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के अध्यापनेतर विशेषज्ञ उप-संवर्ग में विशेषज्ञ ग्रेड-II (सूक्ष्म जीव विज्ञान) के पद पर परीक्षा पर नियुक्त करते हैं।

वी. पी. राणा, अवर सचिव

दिनांक 25 मार्च 2009

सं. ए. 12025/16/2007-सी.एच.एस. III--राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों पर डॉ. अविजीत राय को दिनांक 12 दिसम्बर, 2008 (पूर्वाह्न) से आगामी आदेशों तक केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के जन-स्वास्थ्य उप-संवर्ग में जन-स्वास्थ्य विशेषज्ञ-II के पद पर परीक्षा पर नियुक्त करते हैं।

वी. पी. राणा, अवर सचिव

नई दिल्ली-110011, दिनांक 30 मार्च 2009

सं. ए. 12025/226/2004-सी.एच.एस. I--राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों पर डॉ. सुनील कुमार पाण्डेय को दिनांक 24.10.2007 के पूर्वाह्न से अगले आदेश तक 8,000-275-13,500/- रुपये (पूर्व संशोधित) वेतनमान में केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के चिकित्सा अधिकारी ग्रेड में अस्थायी रूप से नियुक्त करते हैं। डॉ. सुनील कुमार पाण्डेय को केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना दिल्ली के अधीन चिकित्सा अधिकारी के रूप में तैनात किया जाता है। डॉ. सुनील कुमार पाण्डेय नियुक्ति की तारीख से दो वर्ष की अवधि के लिए परीक्षा पर रहेंगे।

माया प्रकाश, अवर सचिव

सं. ए. 12025/132/2006-सी.एच.एस. I--राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों पर डॉ. देबाशीष मन्ना को 01.05.2007 के पूर्वाह्न से अगले आदेशों तक 8000-275-13500/- रुपये (पूर्व संशोधित) वेतनमान में केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के चिकित्सा अधिकारी

ग्रेड में अस्थायी रूप से नियुक्त करते हैं। डॉ. देबाशीष मन्ना को श्रम मंत्रालय के अधीन चिकित्सा अधिकारी के रूप में तैनात किया जाता है। डॉ. देबाशीष मन्ना नियुक्ति की तारीख से दो वर्ष की अवधि के लिए परीक्षा पर रहेंगे।

माया प्रकाश, अवर सचिव

सं. ए. 12025/16/2007-सी.एच.एस. I--राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों पर डॉ. अरूणा शेखर को 29 नवम्बर, 2007 के पूर्वाह्न से अगले आदेशों तक 8000-275-13500/- रुपये (पूर्व संशोधित) वेतनमान में केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के चिकित्सा अधिकारी ग्रेड में अस्थायी रूप से नियुक्त करते हैं। डॉ. अरूणा शेखर को केन्द्रीय सरकार के स्वास्थ्य योजना, दिल्ली के अधीन चिकित्सा अधिकारी के रूप में तैनात किया जाता है। डॉ. अरूणा शेखर नियुक्ति की तारीख से दो वर्ष की अवधि के लिए परीक्षा पर रहेंगे।

माया प्रकाश, अवर सचिव

## कृषि मंत्रालय

(कृषि एवं सहकारिता विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 25 मार्च 2009

सं. ए-19012/9/2003-ई.ए.--राष्ट्रपति, भारतीय सांख्यिकी सेवा (आई एस एस) के 10,000-325-15,200/- रु. के पूर्व संशोधित वेतनमान में वरिष्ठ समय मान स्तर के एक अधिकारी श्री भिजेश कुमार तिवारी को 1 जनवरी, 2009 के पूर्वाह्न से अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, कृषि एवं सहकारिता विभाग में उप निदेशक के पद से कार्य मुक्त करती है।

डी. के. राय, अवर सचिव

## सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 26 मार्च 2009

## शुद्धि-पत्र

सं. 3-7/2004-एन.आई. I-II/डी.डी.-IV--सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय को दिनांक 16 मार्च की समसंख्यक अधिसूचना के हिन्दी पाठ में शब्द "अरविन्द" को "अरविन्द" पढ़ा जाए।

के. एन. मिश्रा, अवर सचिव

## संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

(सूचना प्रौद्योगिकी विभाग)

मानकीकरण, परीक्षण तथा गुणवत्ता प्रमाणन निदेशालय

नई दिल्ली-110003, दिनांक 23 मार्च 2009

सं. 2(5)/2008-पीए(टीबी)--राष्ट्रपति जी ने भारतीय लेखा परीक्षा एवं लेखा विभाग, प्रधान लेखा परीक्षा निदेशक का कार्यालय, मध्य रेलवे, मुम्बई में सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी श्री भास्करन के. एम. को एसटीक्यूसी निदेशालय, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिकी क्षेत्रीय परीक्षण प्रयोगशाला (पश्चिम), मुम्बई में दिनांक

13.03.2009 के पूर्वाह्न से 6600/- रुपये के ग्रेड वेतन सहित 15600--39100/- रुपये के वेतन बैंड-3 में प्रतिनियुक्ति की सामान्य शर्तों एवं निबंधनों पर आरम्भतः दो वर्ष की अवधि के लिए प्रतिनियुक्ति के आधार पर उपनिदेशक नियुक्त किया है।

सतवीर सिंह, उप निदेशक

#### राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केन्द्र

नई दिल्ली-110003, दिनांक 24 मार्च 2009

सं. 5446/एनआईसी/2008-प्रशा.-II--सिविल सेवा परीक्षा-2007 के परिणाम के आधार पर भारतीय पुलिस सेवा में चयन के परिणामस्वरूप, महानिदेशक, रासूविकेन्द्र, नई दिल्ली ने श्री दैविस नेसटेल आर. मारक (कर्मचारी कोड सं. 5446) राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केन्द्र-तुरा ज़िला केन्द्र, मेघालय का वैज्ञानिक अधिकारी/इंजीनियर ग्रेड-"एसबी" के पद से दिनांक 19 दिसम्बर 08 की अपराह्न से तकनीकी त्यागपत्र स्वीकार कर लिया है। उन्हें इसी तारीख से इस कार्यालय में इयूटी से कार्यमुक्त किया जाता है।

पी. एस. पिल्लै, उप निदेशक (प्रशा.-II)

नई दिल्ली-110003, दिनांक 30 मार्च 2009

सं. पीएफ/1397/एनआईसी/2008-प्रशासन-I--राष्ट्रपति, एतद्वारा श्री रजिन्द्र कुमार, कर्मचारी कोड सं. 1397 का राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केन्द्र, हरियाणा राज्य एकक, चंडीगढ़ से वैज्ञानिक "बी" के पद से त्यागपत्र दिनांक 07 नवम्बर, 1997 की अपराह्न से स्वीकार करते हैं और उन्हें उसी दिन से सेवा से कार्यमुक्त किया जाता है।

आर. एम. नायर, उप निदेशक (प्रशासन-I)

#### डाक विभाग

नई दिल्ली-110001, दिनांक 18 मार्च 2009

सं. 13-3/2007-एसपीजी--राष्ट्रपति सहर्ष श्री अजेश दूबे, (भारतीय डाक सेवा-1996), द्वारा दिनांक 19.12.2006 के अपने अभ्यावेदन के ज़रिए दिए गए त्याग-पत्र को दिनांक 30.12.2006 (अपराह्न) से स्वीकार करते हैं।

स्मृति शरण, निदेशक (स्टाफ)

दिनांक 20 मार्च 2009

सं. 2-22/2007-एसपीजी--राष्ट्रपति सहर्ष भारतीय डाक सेवा समूह 'क' के निम्नलिखित पांच अधिकारियों को सेवा के कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड के गैर प्रकार्यात्मक चयन ग्रेड, वेतन बैंड पी-4, 37400--67000/- + ग्रेड वेतन 8700/- रुपये में प्रत्येक अधिकारी के नाम के सामने उल्लिखित अनुसार एनएफएसजी में स्थापन की तारीख

से अगले आदेशों तक स्थानापन्न आधार पर कार्य करने के लिए उन्हें नियुक्त करते हैं :--

क्रम सं.	अधिकारी का नाम	भर्ती का वर्ष	एनएफएसजी में स्थापन की तारीख
1.	सुश्री जी. मधुमिता दास	1996	01.01.2009
2.	श्री संजीव रंजन	1996	01.01.2009
3.	श्री संजय सिंह	1996	01.01.2009
4.	सुश्री टी. मातीलदा श्रीलता	1996	01.01.2009
5.	सुश्री राधिका चक्रवर्ती	1996	01.01.2009

स्मृति शरण, निदेशक (स्टाफ)

#### रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड)

नई दिल्ली, दिनांक 24 मार्च 2009

सं. ई(जी.पी.)2004/1/49--राष्ट्रपति महोदय, भारतीय रेल के सिविल इंजीनियरी विभाग के ग्रुप 'बी' अधिकारी की उल्लिखित रेल पर 12.6.2008 से भारतीय रेल सिविल इंजीनियरी सेवा (आई.आर.एस.ई.) के कनिष्ठ वेतनमान में नियमित रूप से नियुक्ति किए जाने का अनुमोदन करते हैं।

2005-06 के लिए पैनल

अधिकारी का नाम

पूर्व तट रेलवे

1. श्री के. पी. राव

के. बी. एल. मित्तल  
सचिव/रेलवे बोर्ड

दिनांक 27 मार्च 2009

सं. ई(जी.पी.)2007/3/5--राष्ट्रपति महोदय, भारतीय रेलों के कार्मिक विभाग के 27 ग्रुप 'बी' अधिकारियों की उल्लिखित रेलों पर 12.2.2009 से भारतीय रेल कार्मिक सेवा (आई.आर.पी.एस.) के कनिष्ठ वेतनमान में नियमित रूप से नियुक्ति किये जाने का अनुमोदन करते हैं।

2008-09 के लिए पैनल

अधिकारियों का नाम

मध्य रेलवे

सर्वश्री

1. एस. आर. भुम्कर

2. एन. डी. कांबले (अ.जा.) (अ.जा. के आरक्षित पद पर पदोन्नति)

पूर्व तट रेलवे

1. ए. सुब्रह्मनियम्

पूर्व मध्य रेलवे

1. श्री एन. एन. पाठक

पूर्व रेलवे

1. बी. एन. हंसदा (अ.ज.जा.)

(अ.ज.जा. के आरक्षित पद पर पदोन्नति)

2. के. डी. विश्वास (अ.जा.)

(अ.जा. के आरक्षित पद पर पदोन्नति)

उत्तर मध्य रेलवे

1. डी. के. सिंह

पूर्वोत्तर रेलवे

1. श्री एम. के. दीक्षित

2. अमिया रमण

पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे

1. एस. सी. बैनर्जी

2. ए. के. सेन

उत्तर रेलवे

1. एम. के. गौर

2. जगदीश सिंह

उत्तर पश्चिम रेलवे

1. बी. के. अग्रवाल

दक्षिण मध्य रेलवे

1. श्रीमती बी. वाणी कुमारी

2. एस. एम. ब्राशा

दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे

1. तीरस लकड़ा (अ.ज.जा.)

(अ.ज.जा. के आरक्षित पद पर पदोन्नति)

दक्षिण पूर्व रेलवे

1. एन. सी. मंडल (अ.जा.)

(अ.जा. के आरक्षित पद पर पदोन्नति)

2. डी. सुतार (अ.जा.)

(अ.जा. के आरक्षित पद पर पदोन्नति)

3. सुखलाल हंसदा (अ.ज.जा.)

दक्षिण रेलवे

1. जे. सेनगुप्त (अ.जा.)

2. एम. पनीरसेल्वन

3. के. मूर्ती

दक्षिण पश्चिम रेलवे

1. जी. ए. पिल्लई

2. अम्मा अली खान

पश्चिम मध्य रेलवे

1. डी. पी. पराशर

पश्चिम रेलवे

1. राजन मैथ्यू

के. बी. एल. मित्तल  
सचिव/रेलवे बोर्ड

पोत-परिवहन, सड़क-परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

(पोत-परिवहन विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 18 मार्च 2009

सं. एल.एच.-21013/2/2009-एस.एल.-राष्ट्रपति, कार्यालय अधीक्षक के ग्रेड में कार्य कर रहे निम्नलिखित अधिकारियों को दीप-स्तंभ और दीप-पोत महानिदेशालय में प्रत्येक अधिकारी के सामने दी गई तारीख से, 7450-225-11500/- रुपए के वेतनमान में कार्यपालक अधिकारी के पद पर पदोन्नत करते हैं :--

- |                          |                        |
|--------------------------|------------------------|
| 1. श्रीमती सुबाला सरकार  | 05.01.2009 (पूर्वाह्न) |
| 2. श्री जी. सी. हल्दर    | 30.04.2008 (पूर्वाह्न) |
| 3. श्री एन. सम्बासीव राव | 21.05.2008 (पूर्वाह्न) |
| 4. श्री रहमतुल्लाह       | 24.04.2008 (पूर्वाह्न) |

एस. के. गोस्वामी, अवर सचिव

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय

नई दिल्ली-110003, दिनांक 27 मार्च 2009

सं. 3/1/2009-प्रशासन-I--राष्ट्रपति द्वारा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय में सुनम्य पूरक योजना के अंतर्गत निम्नलिखित वैज्ञानिक 'डी' को वेतन बैंड 37400-67000/- रु. + 8700/- रु. ग्रेड वेतन में वैज्ञानिक 'ई' के रूप में दिनांक 26 मार्च, 2009 के पूर्वाह्न से अथवा उनके कार्यभार संभालने की तारीख से, इनमें से जो भी बाद में हो, और अगले आदेशों तक वैयक्तिक आधार पर स्व-स्थाने प्रोन्नति दी जाती है :--

- |                      |
|----------------------|
| 1. डॉ. जी. गिरिधर    |
| 2. डॉ. राजेश कुमार   |
| 3. डॉ. पी. सी. पंत   |
| 4. श्री जी. उपाध्याय |

ए. के. कौशिक, उप-सचिव

सं. 3/1/2009-प्रशासन-I--राष्ट्रपति द्वारा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय में सुनम्य पूरक योजना के अंतर्गत श्री आनन्द नरवाने, वैज्ञानिक 'सी' को वेतन बैंड 15600-39100/- रु. + 7600/- रु. ग्रेड वेतन में वैज्ञानिक 'डी' के रूप में दिनांक 26 मार्च 2009 के पूर्वाह्न से अथवा उनके कार्यभार संभालने की तारीख से, इनमें से जो भी बाद में हो, और अगले आदेशों तक वैयक्तिक आधार पर स्व-स्थाने प्रोन्नति दी जाती है।

ए. के. कौशिक, उप-सचिव

श्रम और रोजगार मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 25 मार्च 2009

सं. ए-12025/15/2007-आई.एस.एच.-11--राष्ट्रपति, श्री मनीश चन्द्र जायसवाल को खान सुरक्षा महानिदेशालय में उप निदेशक, खान सुरक्षा (खनन) के पद पर पूर्व संशोधित 12000-325-16500/- रुपए के वेतनमान में दिनांक 27.2.2009 (पूर्वाह्न) से और अगले आदेशों तक के लिए नियुक्त करते हैं।

सुभाष चन्द, अवर सचिव



## RAJYA SABHA SECRETARIAT

New Delhi-110001, the 25th March 2009

No. RS/5/5/2009/9-Perl.—Shri Rana Direndra Pratap Yadav, temporary Junior Parliamentary Interpreter has qualified in the Departmental Interpretation test held on 20th March, 2009.

C. B. RAI, Director

## CABINET SECRETARIAT

New Delhi, the 9th March 2009

No. A-43013/01/2006-Ad-I—Consequent upon their inclusion in the Select List for the year 2006 for Selection Grade (Deputy Secretary) of Central Secretariat Service (CSS) vide Department of Personnel and Training's Office Memorandum No. 4/9/2008-CS.I(D) dated 30th January, 2009, the President is pleased to appoint the following Grade-I Officers (Under Secretary) of this Secretariat to the Selection Grade (Deputy Secretary) of CSS on regular basis with effect from 1st July, 2006 and until further orders:

S. No.	Name
	S/Shri
1.	Raman K. Mehta
2.	D. Madan

R. KRISHNAMURTHY, Under Secy.

## MINISTRY OF LAW &amp; JUSTICE

## (LEGISLATIVE DEPARTMENT)

New Delhi-110001, the 24th March 2009

No. A-32014/2/2005-Admn.I (L. D.)—The Competent Authority in the Legislative Department, Ministry of Law & Justice is pleased to extent the term of appointment of Shri Mohd. Hussain, Private Secretary as Confidential Superintendent on deputation basis in the pay band of Rs. 9,300—34,800/- plus Grade pay of Rs. 4,800/- in the Legislative Department of the said Ministry for a further period of one year with effect from the forenoon of 30th March, 2009 or until further orders, whichever is earlier.

L. R. RAO, Dy. Secy.

## DEPARTMENT OF LEGAL AFFAIRS

New Delhi, the 26th March 2009

No. A-38012/2/2009-Adm. IV(LA)—On attaining the age of superannuation, Shri Vijay Kumar, Addl. Private Secretary to Hon'ble Minister of Law & Justice, Department of Legal Affairs, stands retired from Government Service with effect from the afternoon of 28th February, 2009.

GANESH DUTTA SHARMA, Under Secy.

## DEPARTMENT OF JUSTICE

New Delhi-110011, the 23rd March 2009

No. K-13022/3/2008-US.I—In exercise of the powers conferred by clause (1) of article 217 of the Constitution of India, the President is pleased to appoint (i) Justice Shri Thenammakkal Ismail Rawther Harun-ul-Rashid, (ii) Justice Shri Valiyaparambil Kuttappan Mohanan and (iii) Justice Shri Giri Venkitasubramani, Additional Judges of the Kerala High Court, to be Judges of the Kerala High Court, in that order of seniority, with effect from the dates they assume charge of their respective offices.

RAMESH ABHISHEK, Jt. Secy.

No. K-13014/6/2008-US.I—In exercise of the powers conferred by clause (1) of article 224 of the Constitution of India, the President is pleased to appoint (i) Shri Filomeno Manuel Lopo Sales Rosario Dos Reis, (ii) Shri Rajesh Govind Ketkar and (iii) Shri Ravi Krishnarao Deshpande, to be Additional Judges of the Bombay High Court, in that order of seniority, for a period of two years with effect from the dates they assume charge of their respective offices.

RAMESH ABHISHEK, Jt. Secy.

## MINISTRY OF HOME AFFAIRS

New Delhi, the 27th March 2009

No. I-14011/11/2008-IPS.I (1)—In exercise of the provisions contained in sub-regulation (3) of Regulation 7 of the Indian Police Service (Appointment by Promotion) Regulations, 1955, the Union Public Service Commission has on 20.03.2009, approved the Select List of 2008, prepared by the Selection Committee in its meeting held on 08.12.2008, containing the names of the following State Police Service Officers of Meghalaya, towards filling up two substantive vacancies during 2008 in the Meghalaya Segment of the Joint Assam-Meghalaya Cadre of IPS :—

## SELECT LIST-2008

Sl. No.	Name of the officer	Date of Birth
	S/Shri	
1.	A. R. Mawthoh (ST)	24.02.1963
2.	S. S. Kynjing (ST)	01.02.1962

O. S. ASHOK, Under Secy.

No. I-14011/11/2008-IPS.I (II)—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 9 of the Indian Police Service (Recruitment) Rules, 1954, read with sub-regulation (1) of regulation 9 of the Indian Police Service (Appointment by Promotion) Regulation, 1955, the President is pleased to appoint the following members of Meghalaya Police Service

to the Indian Police Service on probation and to allocate them to the Joint Cadre of Assam-Meghalaya under sub-rule (1) of the rule 5 of the Indian Police Service (Cadre) rules, 1954 :—

## SELECT LIST-2008

Sl. No.	Name of the officers	Date of Birth
	S/Shri	
1.	A. R. Mawthoh (ST)	24.02.1963
2.	S. S. Kynjing (ST)	01.02.1962

2. The appointments will take effect from the date of issue of this notification.

O. S. ASHOK, Under Secy.

New Delhi, the 30th March 2009

No. A-32014-2-2009-Ad.I (A)—The President is pleased to appoint Ms. Angela Stephen (Seniority No. 12), Principal Private Secretary of CSSS, working as Senior Principal Private Secretary on adhoc basis in the Cadre of Ministry of Home Affairs to the post of Senior Principal Private Secretary on regular basis with effect from the forenoon of 21.01.2009, consequent upon inclusion of her name in the Select List Year 2007 in the Senior Principal Private Secretary of CSSS in PB-3 : Rs. 15,600—39,100/- + GP Rs. 7,600/- (revised).

J. B. SHARMA, Under Secy.

New Delhi-110001, the 30th March 2009

No. 1-18011/1-2009-IPS. IV—In exercise of the powers conferred by Rule-3A of the Indian Police Service (Probation) Rules, 1954, the President is pleased to confirm in the Indian Police Service the following members of the Indian Police Service borne on the cadre of Bihar with effect from the dates mentioned against their names :—

Sl. No.	Name of the IPS probationer	Date of confirmation in the IPS
	S/Shri	
1.	Rajesh Kumar, IPS (BH : 2003)	01.09.2005
2.	Vikas Vaibhav, IPS (BH : 2003)	22.12.2005

RAJINDER KUMAR, Section Officer (IPS-IV)

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES & PENSIONS

(DEPARTMENT OF PERSONNEL & TRAINING)

New Delhi, the 24th March 2009

No. 13017/19/08-AIS(1)—In exercise of the power conferred by Rule 6 (1) of the Indian Administrative Service

(Cadre) Rules, 1954, and with the concurrence of the Government of Punjab and the Ministry of Home Affairs as the cadre controlling authority for the AGMU cadre, the Central Govt. hereby regularise the period of over stay of Shri Jasbir Singh Bir, IAS (PB : 89) on inter cadre deputation from Punjab cadre to AGMU cadre from 20.04.08 to 18.07.08.

HARJOT KAUR, Director (S)

New Delhi, the 24th March 2009

No. A-32013/1/2009-Ad. I—Consequent upon inclusion in the Selection Grade (Deputy Secretary) Select List for the year 2007, the President is pleased to appoint Shri Shailendra Kumar, CSS, as Deputy Secretary in the pay band-3 (PB-3) Rs. 15,600—39,100/- + 7,600/- (Grade Pay) in the Department of Personnel & Training with effect from the forenoon of 25th February, 2009 until further orders.

HARISH CHANDER, Under Secy.

New Delhi, the 25th March 2009

No. 14015/17/2008-AIS (I)-A—In exercise of the powers conferred by Rule 8 (2) of the Indian Administrative Service (Recruitment) Rules, 1954 read with Regulation 8 of Indian Administrative Service (Appointment by Selection) Regulations, 1997, the President is pleased to notify the Select List of Non-State Civil Service Officers of Orissa containing the following names prepared on 22.11.2008 under Regulation 5 and approved on 24th February, 2009 under Regulation 7(2) towards filling up promotion quota vacancies in IAS Cadre of Orissa under Non State Civil Service category determined by the Government of India under Regulation 3 of the said Regulations in consultation with the State Government for the Select List year 2008 :—

## SELECT LIST-2008

Sl. No.	Name of the officers	Date of Birth
	S/Shri	
1.	Dr. Akhila Bihari Ota	12.09.1957
2.	Dr. Prasanta Kumar Pradhan	26.01.1954

S. S. SHUKLA, Under Secy.

No. 14015/17/2008-AIS (I)-B—In exercise of the powers conferred by Rule 8 (2) of the Indian Administrative Service (Recruitment) Rules, 1954 read with Regulation 8 of Indian Administrative Service (Appointment by Selection) Regulations, 1997 and Rule 3 of the Indian Administrative Service (Probation) Rules, 1954, the President is pleased to appoint the following members of the Non-State Civil Service of Orissa to the Indian Administrative Service against the vacancies determined by Government of India under Regulation 3 of the said Regulations in consultation with

the State Government for the Select List year 2008, on probation until further orders and to allocate them to the Orissa Cadre, under Rule 5(1) of the Indian Administrative Service (Cadre) Rules, 1954 :—

---

Sl. No. Name of the officer

---

S/Shri

1. Dr. Akhila Bihari Ota
  2. Dr. Prasanta Kumar Pradhan
- 

S. S. SHUKLA, Under Secy.

The 26th March 2009

No. 14015/21/2008-AIS(I)—In the Notification No. 14015/21/2008-AIS(I)-A dated 24th February, 2009, issued by the Ministry of Personnel, Public Grievances & Pensions (Department of Personnel & Training) the date of meeting of the Selection Committee, i.e. "22.11.2008", shall be substituted by the date "22.12.2008".

S. S. SHUKLA, Under Secy.

No. 14015/32/2008-AIS(I)-B—In pursuance of the recommendations of the Review Selection Committee Meeting held on 11th December, 2008 in compliance of Hon'ble CAT, Principal Bench's directions dated 17.09.2008 in O. A. No. 1883 of 2008 to consider the name of Sh. Risal Singh Khara for inclusion in the Select Lists of 1999, 2000 and 2001 for promotion to IAS and approval of the same conveyed by Union Public Service Commission vide letter dated 23rd March, 2009 and in exercise of the powers conferred by Rule 8 (1) of the Indian Administrative Service (Recruitment) Rules, 1954 read with Regulation 9(1) of the Indian Administrative Service (Appointment by Promotion) Regulations, 1955 and Rule 3 of the Indian Administrative Service (Probation) Rules, 1954, the President is pleased to appoint Shri Risal Singh Khara, a member of the State Civil Service of Haryana to the Indian Administrative Service on the basis of inclusion of his name in the Select List of 1999, on probation until further orders and to allocate him to the IAS Cadre of Haryana, under Rule 5(1) of the Indian Administrative Service (Cadre) Rules, 1954.

S. S. SHUKLA, Under Secy.

New Delhi, the 26th March 2009

No. 22012/14/2002-AIS(I)—In pursuance of the Order dated 20.06.2003 of Hon'ble Central Administrative Tribunal (CAT) Guwahati Bench in O. A. No. 91/2002 and the Order of the High Court Guwahati dated 09.01.2006 in W. P. No. 1574/2004, read with the order dated 11.12.2008 of the Supreme Court in Review SLP No. 2145/08, the Central Government in exercise of the powers conferred by Sub-

Rule (1) of Rule 5 of the Indian Administrative Service (Cadre) Rules 1954, allocates Shri J. Syamala Rao from the IAS Joint Cadre of Assam-Meghalaya to the IAS cadre of Andhra Pradesh. This Notification is issued in supersession of this Ministry's Notification No. 13011/30/96/AIS (I) dated 27.05.1999.

R. K. GUPTA, Under Secy. (AIS)

New Delhi, the 27th March 2009

No. 13016/02/2001-Trg.I—The President is pleased to continue the appointment of Shri P. S. Sareen, Under Secretary of the CSS Cadre, Ministry of Home Affairs as Deputy Director (Management Service) in the Institute of Secretariat Training and Management, New Delhi, on deputation basis, for a further period of one year w.e.f. 17.0.2009 to 16.02.2010 or, till his substitute joins the post, whichever is earlier.

2. This issues in continuation of this Department's Notification of Even No. dated 13.02.2008.

SANDEEP MUKHERJEE, Under Secy. (Training)

---

#### MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS

New Delhi, the 25th November 2008

No. 3/PB.III/2008—On attaining the age of superannuation, Shri Radhey Shyam, an officer of PPS Grade of the Stenographer's Cadre of Indian Foreign Service ('B') retired from Government Service in the afternoon of 31.10.2008 and relinquished charge of the post of Principal Private Secretary in the Ministry of External Affairs in the afternoon of 31st October 2008.

BHASKAR BHATT, Administrative Officer (PB-I)

The 13th January 2009

No. 01/PB-I/2009—On attaining the age of superannuation, Shri Harish Kumar (DoB : 18.12.1948), an officer of the Integrated Grades II & III of General Cadre of Indian Foreign Service (B) retired from Government Service in the afternoon of 31.12.2008 and relinquished charge of the post of Section Officer in the Ministry of External Affairs in the afternoon of 31.12.2008.

BHASKAR BHATT, Administrative Officer (PB-I & III)

The 19th January 2009

No. 2/PB-I/2009—The President is pleased to appoint the undermentioned officer belonging to Grade II of Cypher Cadre of IFS (B) to officiate in Integrated Grades II & III of General Cadre of IFS (B) with effect from the date shown

against his name in terms of Ministry's O. M. No. Q/CAD/584/04.2008 dated 3rd June, 2008 :—

Sl. No.	Name of the Officer	Date of Birth	Date of promotion
	Sh./Smt.		
1.	Anup Demta	30.11.1969	01.01.2009

2. The abovementioned officer has assumed charge of the post of Section Officer with effect from the date indicated against his name.

BHASKAR BHATT, Administrative Officer (PB-I & III)

The 3rd February 2009

No. 04/PB-I/2009—On attaining the age of superannuation, Shri Kishori Lal (DoB : 07.01.1949), an officer of the Integrated Grades II & III of General Cadre of Indian Foreign Service (B) retired from Government Service in the afternoon of 31.01.2009 and relinquished charge of the post of Section Officer in the Ministry of External Affairs in the afternoon of 31.01.2009.

BHASKAR BHATT, Administrative Officer (PB-I & III)

No. 03/PB-I/2009—On attaining the age of superannuation, Smt. Saroj Sethi (DoB : 03.01.1949), an officer of the Integrated Grades II & III of General Cadre of Indian Foreign Service (B) retired from Government Service in the afternoon of 31.01.2009 and relinquished charge of the post of Section Officer in the Ministry of External Affairs in the afternoon of 31.01.2009.

BHASKAR BHATT, Administrative Officer (PB-I & III)

#### MINISTRY OF FINANCE

##### (DEPARTMENT OF REVENUE)

New Delhi, the 25th March 2009

No. 3/2009 (F. No. A-32014/1/2009-Ad. IA)—In pursuance of the Department of Expenditure, (CAS)'s O. M. No. 32014/03/2008-CAS dated 20th February, 2009, the President is pleased to appoint the following officers as Principal Private Secretary of CSSS in PB-3 (Rs. 15,600—39,100/- + Grade Pay Rs. 6,600/-) on regular basis with effect from 20th February, 2009 against the Select List Year 2003 & 2004 :—

##### Select List Year 2003

Sl. No.	Name
	S/Shri/Smt.
1.	C. Gopinathan, PPS
2.	Maninderjit Singh, PPS
3.	A. Balakrishnan, PPS

##### Select List Year 2004

Sl. No.	Name
	S/Shri/Smt.
1.	V. P. Kunjachan PPS
2.	Vinod Bhusan Sharma, PPS

ANAND UPADHYAY, Under Secy.

New Delhi, the 12th March 2009

#### INDIAN REVENUE SERVICE (CUSTOMS & CENTRAL EXCISE) ESTABLISHMENTS

No. 11 of 2009 (F. No. A-38012/03/2009-Ad.II)—The President is pleased to accept the notice of Voluntary Retirement of Shri Mathew Philip, Assistant Commissioner of Central Excise, Daman with effect from 30.04.2009 (AN) under Rule 48 of the CCS (Pension) Rules, 1972.

S. K. DEB, Under Secy.

No. 12 of 2009 (F. No. A-38012/04/2009-Ad.II)—The President is pleased to accept the notice of Voluntary Retirement of Shri Goverdhan Lal (DoB : 07.06.1950), Assistant Commissioner of Central Excise, Jaipur with effect from 25.04.2009 (FN) under Rule 48-A of the CCS (Pension) Rules, 1972.

S. K. DEB, Under Secy.

#### DEPARTMENT OF EXPENDITURE

New Delhi, the 24th March 2009

No. A-12026/5/2005-Ad.I—The President is pleased to appoint Smt. Anjuly Chib Duggal, IAS (PB : 81), as Joint Secretary (PF-I) in the Ministry of Finance, Department of Expenditure, in the Pay Band (PB-4) of Rs. 37,400—67,000/- + Rs. 10,000/- (Grade Pay) with effect from the afternoon of the 23rd March, 2009 for a period of 5 years, i.e., upto 23.03.2014 (FN) or until further orders, whichever event takes place earlier.

MEETALI GHOSH, Under Secy.

#### OFFICE OF THE CHIEF ADVISER COST

New Delhi, the 30th March 2009

No. A-60011/3/07-CAC—On the recommendations of the UPSC, the President is pleased to appoint Shri Gurpreet Singh Anand in the grade of Assistant Director (Cost) in the Indian Cost Accounts Service, Ministry of Finance, Department of Expenditure in the pay scale of PB-3, Rs. 15,600—37,400/-, with Grade Pay of Rs. 5,400/- (Pre-revised Rs. 8,000-275-13,500/-) with effect from the forenoon of 13th March, 2009. On his appointment as Assistant

Director (Cost) he has been posted in the office of Chief Adviser Cost.

M. K. SAHOO, Dy. Director (Cost)

---

MINISTRY OF COMMERCE & INDUSTRY

OFFICE OF THE ECONOMIC ADVISER

New Delhi, the 17th March 2009

No. A-22012/1/2007-Ec.Ad.(Admn.-I)—Consequent on his promotion to Senior Time Scale level of the Indian Economic Service vide Department of Economic Affairs Order No. P-2/2009 (F. No. 13016/4/2009-IES) dated 3rd March, 2009, Shri Ashwini Kumar has assumed the charge of the post of Deputy Director in the PB-3 of Rs. 15,600—39,100/- plus Grade Pay Rs. 6,600/- in the Office of the Economic Adviser, Ministry of Commerce & Industry with effect from the forenoon of 13.03.2009.

RANJAN MUKHERJEE, Dy. Director (Admn.)

---

MINISTRY OF COAL

New Delhi, the 26th March 2009

No. 18/7/2007-ASO—The President is pleased to extend the period of additional charge of the post of Coal Controller in the Coal Controller's Organisation, Kolkatta assigned to Shri P. R. Mandal, Adviser (Projects), Ministry of Coal for further period beyond 31.03.2009 and upto 30.06.2009 or till regular appointment to the post is made or until further orders, whichever is earliest.

SHARAD GHODKE, Director

---

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(CHS DIVISION)

New Delhi-110108, the 24th March 2009

No. A-12025/14/2008-CHS.-IV—On the recommendations of the Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint Dr. (Smt.) Simrita Singh to the post of Specialist Grade-II (Microbiology) in the Non-Teaching Specialist sub cadre of Central Health Service, on probation w.e.f. the forenoon of the 7th November, 2008, until further orders.

V. P. RANA, Under Secy.

The 25th March 2009

No. A-12025/16/2007-CHS.-III—On the recommendations of the Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint Dr. Avijit Roy to the post of Public Health Specialist Grade-II in the Public Health Sub-Cadre of Central Health Service, on probation with effect from 12th December, 2008 (FN) and until further orders.

V. P. RANA, Under Secy.

New Delhi-110108, the 30th March 2009

No. A-12025/226/2004-CHS.I—On the recommendations of the Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint Dr. Sunil Kumar Pandey to the Medical Officers Grade of the Central Health Service in the (pre-revised) scale of pay of Rs. 8,000-275-13,500/- in a temporary capacity with effect from the forenoon of 24.10.2007 until further orders. Dr. Sunil Kumar Pandey is posted as Medical Officer under Central Government Health Scheme, Delhi. Dr. Sunil Kumar Pandey shall be on probation for two years from the date of appointment.

MAYA PRAKASH, Under Secy.

No. A-12025/132/2006-CHS.I—On the recommendations of the Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint Dr. Debasish Manna to the Medical Officers Grade of the Central Health Service in the (pre-revised) scale of pay of Rs. 8,000-275-13,500/- in a temporary capacity with effect from the forenoon of 01.05.2007 until further orders. Dr. Debasish Manna is posted as Medical Officer under Ministry of Labour. Dr. Debasish Manna shall be on probation for two years from the date of appointment.

MAYA PRAKASH, Under Secy.

No. A-12025/16/2007-CHS.I—On the recommendations of the Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint Dr. Aruna Sekhar to the Medical Officers Grae of the Central Health Service in the scale of pay of Rs. 8,000-275-13,500/- (Pre-revised) in a temporary capacity with effect from the forenoon of the 29th November, 2007 until further orders. Dr. Aruna Sekhar is posted as Medical Officer under Central Government Health Scheme, Chennai. She would be on probation period for two years from the date of appointment.

MAYA PRAKASH, Under Secy.

---

MINISTRY OF AGRICULTURE

(DEPARTMENT OF AGRICULTURE AND COOPERATION)

New Delhi, the 25th March 2009

No. A-19012/9/2003-EA—The President is pleased to relieve Shri Dhrijesh Kumar Tiwari, a Senior Time Scale (STS) level officer of Indian Statistical Service (ISS), of the charge of the post of Deputy Director in the Directorate of Economics and Statistics, Department of Agriculture and Cooperation, in the pay scale of Rs. 10,000-325-15,200/- (Pre-revised), with effect from the forenoon of 1st January, 2009.

D. K. ROY, Under Secy.

## MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE &amp; EMPOWERMENT

New Delhi-1, the 26th March 2009

## CORRIGENDUM

No. 3-7 2004-NIILDD.IV—In the Hindi version of Ministry of Social Justice & Empowerment notification of even number dated 16th March, the word "Arbind" may be read as "Arvind".

K. N. MISHRA, Under Secy.

MINISTRY OF COMMUNICATIONS AND  
INFORMATION TECHNOLOGY

(DEPARTMENT OF INFORMATION TECHNOLOGY)

STANDARDISATION, TESTING & QUALITY  
CERTIFICATION DIRECTORATE

New Delhi-110003, the 23rd March 2009

No. 2(5)-2008-PA(TB)—The President is pleased to appoint Shri Bhaskaran K.M., Assistant Audit Officer, Indian Audit & Accounts Department, Office of the Principal Director of Audit, Central Railway, Mumbai as Deputy Director in Electronics Regional Test Laboratory, ERTL (West), Mumbai under SIQC Directorate, Department of Information Technology in the Pay Band 3 Rs. 15,600—39,100/- plus Grade Pay of Rs. 6,600/- on deputation basis initially for a period of two years w.e.f. 13.03.2009 (FN) on usual terms & conditions of deputation.

SATVIR SINGH, Dy. Director

## NATIONAL INFORMATICS CENTRE

New Delhi-110003, the 24th March 2009

No. 5446/NIC 2008-Adm-II—Consequent upon his selection in Indian Police Services on the basis of the result of the Civil Services Examination-2007, the Director General, National Informatics Centre, New Delhi has accepted the technical resignation of Shri Davis Nestell R. Marak, (Emp. Code No. 5446), NIC-Tura District Centre, Meghalaya, from the post of Scientific Officer/Engineer Grade-SB, with effect from the afternoon of 19th December, 2008. He is relieved of his duty in this office from the same date.

P. S. PILLAI, Dy. Director (Adm-II)

New Delhi 110003, the 30th March 2009

No. PF 1397/NIC 2008-Adm-I—The President is pleased to accept the resignation of Shri Rajinder Kumar, Emp. Code-1397, from the post of Scientific 'B', NIC-Haryana State Unit, Chandigarh with effect from the afternoon of 7th November, 1997 and he stands relieved of his duty from the same day.

R. M. NAIR, Dy. Director (Adm-I)

## DEPARTMENT OF POSTS

New Delhi-110116, the 18th March 2009

No. 13-3/2007-SPG—The President is pleased to accept the resignation tendered by Shri Ajesh Dubey, (IPoS-1996) vide his application dated 19.12.2006, with effect from 30.12.2006 (AN).

SMRITI SHARAN, Director (Staff)

The 20th March 2009

No. 2-22/2007-SPG—The President is pleased to appoint the following five officers of the Indian Postal Service Group-A to officiate against the post in the Non-Functional Selection Grade in the Junior Administrative Grade of the Service in the Pay Band-4 Rs. 37,400—67,000/- – Grade Pay Rs. 8,700/- w.e.f. the date of placement of NFSG as indicated against the name of each officer until further orders:—

Sl. No.	Name of the Officer	Year of Recruitment	Date of placement in NGSG
	S/Shri		
1.	Ms. G. Madhumita Das	1996	01.01.2009
2.	Sanjiv Ranjan	1996	01.01.2009
3.	Sanjay Singh	1996	01.01.2009
4.	Ms. T. Matilda Sreelatha	1996	01.01.2009
5.	Ms. Radhika Chakravarthy	1996	01.01.2009

SMRITI SHARAN, Director (Staff)

## MINISTRY OF RAILWAYS

(RAILWAY BOARD)

New Delhi, the 24th March 2009

No. E(GP)2004/1:49—The President is pleased to approve of the undermentioned Group 'B' Officer of Civil Engineering Department of Indian Railways, being appointed to the Junior Scale of Indian Railway Service of Engineers (IRSE) with effect from 12.06.2008 on the Railway mentioned.

Panel for 2005-2006

East Coast Railway

Name of the Officer

Shri K. P. Rao

K. B. L. MITTAL, Secy.  
(Railway Board)

The 27th March 2009

No. E(GP)2007/3/5—The President is pleased to approve of the undermentioned 27 Group B Officers of Personnel Department of Indian Railway, being appoint to the Junior

Scale of Indian Railway Personnel Service (IRPS) with effect from 12.02.2009 on the Railways mentioned against each:—

Panel for 2008-2009

Name of the Officer

Central Railway

S/Shri

1. S. R. Bhumkar
2. N. D. Kamble (SC) (Promoted against SC vacancy)

East Coast Railway

1. A. Subrahmanyam

East Central Railway

1. N. N. Pathak

Eastern Railway

1. B. N. Hansda (ST) (Promoted against ST vacancy)
2. K. D. Biswas (SC) (Promoted against SC vacancy)

North Central Railway

1. D. K. Singh

North East Railway

1. M. K. Dixit
2. Amiya Raman

Northeast Frontier Railway

1. S. C. Banerjee
2. A. K. Sen

Northern Railway

1. M. K. Gaur
2. Jagdish Singh

North Western Railway

1. B. K. Agarwal

South Central Railway

1. Smt. B. Vani Kumari
2. S. M. Basha

South East Central Railway

1. Tiras Lakra (ST) (Promoted against ST vacancy)

South Eastern Railway

1. N. C. Mondal (SC) (Promoted against SC vacancy)
2. D. Sutar (SC) (Promoted against SC vacancy)
3. Sukhlal Hansda (ST)

Southern Railway

1. J. Senguttuvan (SC)
2. M. Panneerselvan
3. K. Murthy

South Western Railway

1. G. A. Pillai
2. Asgar Ali Khan

West Central Railway

1. D. P. Parashar

Western Railway

1. Rajan Mathew

K. B. L. MITTAL, Secy.  
Railway Board

MINISTRY OF SHIPPING ROAD TRANSPORT &  
HIGHWAYS

(DEPARTMENT OF SHIPPING)

New Delhi, the 18th March 2009

No. LH-21013/2/2009-SL—The President is pleased to promote the following officers in the grade of Office Superintendent to the post of Executive Officer in the pay scale of Rs. 7,450-225-11,500/- in the Directorate General of Lighthouses & Lightships with effect from the dates indicated against each:—

- |                           |                         |
|---------------------------|-------------------------|
| (1) Smt. Subala Sarkar    | : 05.01.2009 (Forenoon) |
| (2) Shri G. C. Halder     | : 30.04.2008 (Forenoon) |
| (3) Shri N. Sambasiva Rao | : 21.05.2008 (Forenoon) |
| (4) Shri Rahamtullah      | : 24.04.2008 (Forenoon) |

S. K. GOSWAMI, Under Secy.

MINISTRY OF NEW AND RENEWABLE ENERGY

New Delhi-110003, the 27th March 2009

No. 3/1/2009-Admn.I—The President is pleased to give in-situ promotion on a personal basis under the Flexible Complementing Scheme to the following Scientists 'D' as Scientists 'E' in the Ministry of New and Renewable Energy in the Pay Band of Rs. 37,400—67,000/- + Grade Pay of Rs. 8,700/- with effect from the forenoon of 26th March, 2009 or from the date of their assumption of charge, whichever is later and until further orders:—

- (i) Dr. G. Giridhar
- (ii) Dr. Rajesh Kumar
- (iii) Dr. P. C. Pant
- (iv) Shri G. Upadhyay

A. K. KAUSHIK, Dy. Secy.

No. 34/2009-Admn.I—The President is pleased to give insitu promotion on a personal basis under the Flexible Complementing Scheme to Shri Anand Narvane, from Scientist 'C' as Scientists 'D' in the Ministry of New and Renewable Energy in the Pay Band of Rs. 15,600—39,100/- and Grade Pay of Rs. 7,600/- with effect from the forenoon of 26th March, 2009 or from the date of their assumption of charge, whichever is later and until further orders.

A. K. KAUSHIK, Dy. Secy.

MINISTRY OF LABOUR & EMPLOYMENT

New Delhi, the 25th March 2009

No. A-12025/15/2007-ISH-II—The President is pleased to appoint Shri Manish Chandra Jaiswal to the post of Deputy Director of Mines Safety (Mining) in the pre-revised pay scale of Rs. 12,000-375-16,500/- in the Directorate General of Mines Safety, Dhanbad with effect from 27.02.2009 (FN) and until further orders.

SUBHASH CHAND, Under Secy.